



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1979/पौष 29, 1900
No. 2] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1979/PAUSA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1979

सं. 9-4/78-ई. पी.—भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्न विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी-वृन्द) विनियम 1971 में संशोधन करता है :

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (53वां संशोधन) विनियम 1979 कह जायेंगे।

(2) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृत्त) अधिनियम, 1971 के अधिनियम 59 के उप-अधिनियम (4) में दी गई व्यवस्थाएं अब निम्नप्रकार से होंगी :—

“यदि अनुशासनिक प्राधिकारी अभियांश के सभी अथवा किसी भी मूद्दे के बारे में की गई छानबीन तथा जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचता है कि अधिनियम 54 के खंड (5) से (9) में निर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति निगम के कर्मचारी को दिया जाना चाहिए तो वह ऐसी शास्ति देते हुए आदेश जारी करेगा तथा इस प्रकार प्रस्तावित शास्ति के प्रति निगम के कर्मचारी को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

आर. नारायणस्वामी, सचिव

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 1979

No. 9-4/78-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff Regulations, 1971 :—


1. (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (58th Amendment) Regulations, 1979.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 2nd January, 1979

2. The existing provisions under sub-regulation (4) of Regulation 59 of the FCI (Staff) Regulations, 1971, shall be substituted as follows.—

“If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Regulation 54 should be imposed on the Corporation employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Corporation employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.”

R. NARAYANASWAMY, Secy.



GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979